



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20—अक्टूबर 26, 2007 (आश्विन 28, 1929)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20—OCTOBER 26, 2007 (ASVINA 28, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2007

सं. 510, दिनांक 26 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 70) बैच के अधिकारी श्री विजय सिंह का सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग से स्थानांतरण होने पर, उन्हें दिनांक 31 जुलाई 2007 (अपराह्न) से सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि दो वर्ष अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

अजय तिकरी  
संयुक्त सचिव

सं. 511, दिनांक 26 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 76) के अधिकारी और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) में अपर सचिव श्री शशि कांत शर्मा को 20 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से महानिदेशक के स्तर के पद का अस्थायी संचालन करते हुए अपर सचिव के रैंक और वेतन में रक्षा

मंत्रालय के रक्षा विभाग में महानिदेशक (अर्जन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा के अपर सचिव श्री आर. सी. रतूडी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जून, 2007 तथा 24 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 4/9/2006-सी एस-1 के अनुसरण में 2 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, पूरी तरह से तदर्थ आधार पर, इसी मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की रक्षा मंत्रालय में उप सचिव (तदर्थ) में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

(i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता के दावे का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा उपर्युक्त नियुक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11 जनवरी 2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नफरी के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री सुधीर कुमार रस्तोगी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सी एस-1 (डेस्क) के अनुसरण में, 12 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:--

(i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता के दावे का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा उपर्युक्त नियुक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11 जनवरी 2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सी एस-1 (डेस्क) के अनुसरण में, 12 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

(i) श्री पी. सी. धस्माना

(ii) सुश्री अर्चना वर्मा

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:--

(i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता के दावे का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा उपर्युक्त नियुक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11 जनवरी 2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग), पूर्ति एवं निपटन महानिदेशालय की नफरी के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्रीमती मलाथी नारायणन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जुलाई, 2007 के

आदेश सं. 5/6/2007-सी एस-1 (डेस्क) के अनुसरण में, 26 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:--

(i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता के दावे का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा उपर्युक्त नियुक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11 जनवरी 2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार को 17 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री बी. एस. दहिया को 20 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री सुनील सचदेवा को 17 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग संवर्ग के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सोहन लाल जुगरान जो इस समय इसी मंत्रालय में कार्यरत हैं, को राजभाषा विभाग के 19 अप्रैल, 2007 के आदेश सं. 5/11/2004-रा. भा. (सेवा) के अनुसरण में, 02 अगस्त 2007 (पूर्वाह्न) से 18 अक्टूबर 2007 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्त के अध्वधीन है:--

तदर्थ आधार पर पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा राजभाषा विभाग संवर्ग के उप निदेशक (राजभाषा) ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

एस. के. देव  
अवर सचिव

## (वित्त प्रभाग)

सं. 512, दिनांक 27 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, श्री अरूण कुमार कौल  
की रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 11 जुलाई 2007 से अगले  
आदेशों तक सहायक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सं. 513, दिनांक 26 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय  
आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों की  
12,000-325-16,500 रु. के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान  
निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को उनके नाम के सामने  
दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध  
होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और  
आगे बढ़ाते हैं:--

अधिकारी का नाम, से, तक

सर्वश्री

ओ. पी. चौहान 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

बी. के. बैनर्जी 01 जुलाई 2007, 30 नवम्बर 2007

एच. सी. नारंग 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित  
नियमित निजी सचिवों की 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में रक्षा  
मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को  
उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियमित प्रधान निजी  
सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से  
जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं:--

अधिकारी का नाम, से, तक

सर्वश्री

एम. शशिधरण 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

जी. वी. सिंह 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

ए. एस. भरारा 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

बी. सी. मेहता 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

सुरेश कुमार 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

पी. के. मलिक 01 जुलाई 2007, 31 दिसम्बर 2007

एस. के. देव  
अवर सचिव

सं. 514, दिनांक 26 सितम्बर 2007--आई. आर. टी. एस. (87) की  
धिकारों और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्रीमती चंद्रलेखा मुखर्जी के विस्तारित  
7 से 31 अगस्त 2007 तक अर्जित छुट्टी

के समाप्त होने पर 31 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से उनकी सेवाएं रेल  
मंत्रालय (रेल बोर्ड) को सौंपी जाती हैं।

एस. के. देव  
अवर सचिव

सं. 515, दिनांक 28 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं:--

## नियमित सेना

## तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (ए आई जी) के पद में

सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-257433ए), 12 फरवरी 2007/01 फरवरी  
2007\*

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-255679ए), 03 मई 2007/01 मई 2007\*

सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-256472एम), 01 मई 2007

सूबेदार कनवराज सिंह राठौर (जेसी-256560एच), 01 मई 2007

सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-256557एच), 01 जून 2007

सूबेदार शिव प्रसाद (जेसी-256876पी), 02 जुलाई 2007/01 जुलाई  
2007\*

सबस्टैंटिव सूबेदार (ए आई जी) के पद में

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-262210एम), 01 मार्च 2007/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-264027एच), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार शिवजी लाल मीणा (जेसी-262426एन), 01 दिसम्बर  
2006

नायब सूबेदार कृष्ण पाल (जेसी-264433एच), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्रन के (जेसी-264434एल), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-264437 वाई), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर मिश्रा (जेसी-264435एन), 01 दिसम्बर  
2006

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-264440वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार दिवान सिंह नेगी (जेसी-264441एफ), 02 जनवरी  
2007/01 जनवरी 2007\*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-264442के), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार ए राजेन्द्रन (जेसी-264438एफ), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-264439के), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जेसी-264444पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार जय चन्द (जेसी-264443एम), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जोशे थॉमस पटेलील (जेसी-264445एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार शिवानन्दन ओ जी (जेसी-264446ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-264447एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कमल जीत सिंह (जेसी-264591एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कुमारस्वामी मराटी (जेसी-262571एल), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-264589ए), 04 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार बालकिशन (जेसी-264593एच), 04 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार स्वरूप सिंह (जेसी-264590पी), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार अनुप कुमार (जेसी-264588एक्स), 09 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-264595एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मोहम्मद माहे आलम (जेसी-264597वाई), 04 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार किशोरी लाल चौहान (जेसी-264596डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-264750के), 03 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-264599के), 21 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-264749पी), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-264602वाई), 09 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 \*

नायब सूबेदार सुरज मल (जेसी-264751एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-264752पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-264600एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार लखबीर सिंह (जेसी-264753एक्स), 01 मई 2007

नायब सूबेदार नागेन प्रसाद गोपे (जेसी-264754ए), 01 मई 2007

नायब सूबेदार दशरथ सिंह (जेसी-264601डब्ल्यू), 01 मई 2007

नायब सूबेदार प्रेम सिंह वर्मा (जेसी-264755एच), 16 मई 2007/01 मई 2007 \*

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री (जेसी-264756एल), 05 मई 2007/01 मई 2007 \*

नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-265210एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-265212एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-265213एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार लखबीर सिंह (जेसी-265216वाई), 01 जुलाई 2007

\*[ज्येष्ठता प्राप्त]

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राम स्वरूप यादव (सं. 14472868ए अब जेसी-269835के), 10 अगस्त 2006/01 जून 2006 \*

हवलदार गुप्तेश्वर नाथ यादव (सं. 14376221पी अब जेसी-269836एम), 11 सितम्बर 2006/01 जून 2006 \*

बीएचएम नेम सिंह (सं. 14481164एक्स अब जेसी-269837पी), 26 जुलाई 2006/02 जून 2006 \*

आरएचएम रघुबीर लाल (सं. 14484340पी अब जेसी-269838एक्स), 27 सितम्बर 2006/01 जुलाई 2006 \*

हवलदार प्रबीर कुमार नाथ (सं. 14403335एम अब जेसी-269839ए), 23 अक्टूबर 2006/01 अगस्त 2006 \*

हवलदार बसावाराज एस वक्कुन्ड (सं. 14370805के अब जेसी-269840पी), 10 सितम्बर 2006/06 अगस्त 2006 \*

हवलदार अशोक कुमार पी (सं. 15108061एन अब जेसी-269841एक्स), 14 अक्टूबर 2006/07 अगस्त 2006 \*

हवलदार प्रेम लाल (सं. 14401966डब्ल्यू अब जेसी-269842ए), 16 सितम्बर 2006/10 अगस्त 2006 \*

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 14398936एल अब जेसी-269843एच), 28 नवम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 14488070एच अब जेसी-269844एल), 22 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार गजानन प्रसाद मिश्रा (सं. 14481362एच अब जेसी-269845एन), 01 नवम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार सुब्बे गौटा के एम (सं. 14399844एल अब जेसी-269846डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार देश राज (सं. 14486549वाई अब जेसी-269847वाई), 24 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 \*

हवलदार महेन्द्र कुमार पाण्डे (सं. 14481375ए अब जेसी-269848एफ), 01 नवम्बर 2006

बीएचएम राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14367439एक्स अब जेसी-269849के), 01 नवम्बर 2006

हवलदार शिव करन सिंह भदौरिया (सं. 15103821पी अब जेसी-269850वाई), 08 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 14497408के अब जेसी-269990एल), 29 नवम्बर 2006/08 मार्च 2006 \*

बीएचएम कमल देव (सं. 14481794एक्स अब जेसी-269991एन), 28 सितम्बर 2006/30 जून 2006 \*

बीएचएम बलविन्दर सिंह (सं. 14496833एच अब जेसी-269992डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006 \*

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 14485096एम अब जेसी-269993वाई), 21 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006 \*

बीएचएम पटेल अनिल कुमार अर्जुन भाई (14491398पी अब जेसी-269994एफ), 01 फरवरी 2007/27 अगस्त 2006 \*

हवलदार रणवीर शर्मा (सं. 14375538एक्स अब जेसी-269995के), 27 दिसम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 \*

हवलदार राम नाथ (सं. 14366059पी अब जेसी-269996एम), 06 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 \*

हवलदार राजीवन पी (सं. 14399179एन अब जेसी-269997पी), 03 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 \*

हवलदार बसन्त सिंह (सं. 14481591एन अब जेसी-269998एक्स), 03 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 \*

हवलदार बिक्रम सिंह (15113186पी अब जेसी-269999ए), 08 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 \*

हवलदार दिनेश प्रसाद (14364355एफ अब जेसी-270000एफ), 19 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 \*

बीएचएम ब्रीजेश (14481776पी अब जेसी-270001के), 08 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार अत्तर सिंह (14389035एक्स अब जेसी-270002एम), 15 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार राम रूप (14476402पी अब जेसी-270003पी), 08 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

हवलदार नेमी चन्द (14371534के अब जेसी-270004एक्स), 01 जनवरी 2007

बीएचएम माधो सिंह (14402706एक्स अब जेसी-270005ए), 06 जनवरी 2007/01 जनवरी 2006 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पायनियर कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी)

रैंक, नाम, जेसी नम्बर, पदोन्नति दिनांक

सूबेदार जी डी आशित कुमार पंडित (जेसी-829042डब्ल्यू), 15 मार्च 2007 \*

सूबेदार जी डी प्रमोद कुमार (जेसी-829045के), 11 जून 2007#

\*वरिष्ठता 01 मार्च 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

#वरिष्ठता 01 जून 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

स्थाई सूबेदार (जी डी/आर टी)

नायब सूबेदार जी डी लाला राम (जेसी-829275एक्स), 1 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार जी डी गोदावरी रथा (जेसी-829276ए), 1 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जी डी विद्यु भूशन बिस्वास (जेसी-829277एच), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जी डी मन्डल (जेसी-829278एल), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जी डी महेश्वर महतो (जेसी-829281एल), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जी डी बलवन्त सिंह (जेसी-829282एन), 02 मार्च 2007@

नायब सूबेदार जी डी जगदीश प्रसाद (जेसी-829283डब्ल्यू), 10 मार्च 2007@

नायब सूबेदार जी डी हरि नाथ ठाकुर (जेसी-829284वाई), 28 मई 2007#

नायब सूबेदार जी डी सावलिया प्रसाद (जेसी-829285एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार आर टी कुलदीप कुमार शुक्ला (जेसी-829136एन), 26 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार आर टी क्रिपा शंकर त्रिपाठी (जेसी-829138वाई), 02 फरवरी 2007 \*

@वरिष्ठता 01 मार्च 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

#वरिष्ठता 01 अप्रैल 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

\*वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

स्थाई नायब सूबेदार (आर टी)

चन्द्र कान्त (जेसी-829337एम), 10 दिसम्बर 2005

मुरारी लाल शर्मा (जेसी-829368एम), 02 दिसम्बर 2006

पी. रामा शास्त्री

अवर सचिव

सं. 516, दिनांक 28 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल से कर्नल (टाईम स्केल) के पद पर

ले. कर्नल एच के बत्स (एन. टी. आर-16379वाई), 17 मई 2005

जी. रवीन्द्रनाथ

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स.से.चि.से. (कार्मिक)

सं. 517, दिनांक 28 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की उसके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल के पद पर

एन टीआर-16379वाई ले कर्नल (टाईम स्केल) एच के वत्स  
16 दिसम्बर 2004

पवन कपूर  
डीजीएफएमएस (पी)

रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (नौ सेना)

स्थायी कमीशन

सं. 518, दिनांक 01 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति नौ सेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी (एन-II) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

कमल अशरफ (05232आर), 01 जुलाई 2002, 16 दिसम्बर 2004  
अमित एस गोरे (05290वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
ए कलान (05522जैड), 01 जुलाई 2004, 16 नवम्बर 2005  
राकेश रावत (05231एन), 01 जुलाई 2002, 16 दिसम्बर 2004  
एस एस हरि (05287आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
गौरव दुर्गापाल (05432डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004, 16 अप्रैल 2005  
पुलकित कोहली (05443डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004, 01 नवम्बर 2005  
आशीष दत्ता (05438एच), 01 जनवरी 2004, 16 अगस्त 2005  
अविशेक मंडल (05435ए), 01 जनवरी 2004, 01 जनवरी 2006  
एस एस पी सिंह (05449एच), 01 जनवरी 2004, 16 सितम्बर 2005  
शान स्टेनले (05274के), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
रोहन एम किनि (05517एन), 01 जुलाई 2004, 16 जुलाई 2005  
रविन्द्रा यादव (05518आर), 01 जुलाई 2004, 01 अगस्त 2005  
अभिषेक यादव (05501ए), 01 जुलाई 2004, 16 अगस्त 2005  
सचिन के रावत (05524बी), 01 जुलाई 2004, 16 अगस्त 2005  
वी जे मोहन (05505के), 01 जुलाई 2004, 01 अक्टूबर 2005  
पाल एस रंजन (05521वाई), 01 जुलाई 2004, 16 अक्टूबर 2005

सुमित मलिक (05530टी), 01 जुलाई 2004, 16 दिसम्बर 2005

बी आर शशिधर (05525एफ), 01 जुलाई 2004, 01 जनवरी 2006

श्रीजीत एम मैन्नन (05504एच), 01 जुलाई 2004, 16 जनवरी 2006

एम प्रसन्ना कुमार (05507आर), 01 जुलाई 2004, 01 मार्च 2006

आलोक भक्त (05510वाई), 01 जुलाई 2004, 01 अप्रैल 2006

एन सी विजय कृष्णा (05511जैड), 01 जुलाई 2004, 01 फरवरी 2006

अक्षय खन्ना (05520डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004, 16 अगस्त 2005

रूबेन फर्नान्डेज (05427एच), 01 जनवरी 2004, 16 फरवरी 2006

ए एस रंधावा (05397आर), 01 जुलाई 2003, 01 फरवरी 2005

मृन्मोए घोष (05393एफ), 01 जुलाई 2003, 01 अप्रैल 2005

प्रदीप सिंह (05503एफ), 01 जुलाई 2004, 01 सितम्बर 2005

टी दत्ता (05529आर), 01 जुलाई 2004, 16 अप्रैल 2006

आदित पटनायक (05515एच), 01 जुलाई 2004, 01 अगस्त 2005

ईशान पांडे (05526एच), 01 जुलाई 2004, 16 दिसम्बर 2005

एस के अरोड़ा (05561एन), 01 जनवरी 2005, 01 मार्च 2006

रूपवान पी आर (05574टी), 01 जनवरी 2005, 01 मई 2006

प्रवीन कुमार (05555जैड), 01 जनवरी 2005, 16 अगस्त 2006

एस ओमानाकुट्टन (05579बी), 01 जनवरी 2005, 16 अगस्त 2006

रूपक (05572एन), 01 जनवरी 2005, 01 सितम्बर 2006

विनीत मन्कोटिया (05546बी), 01 जनवरी 2005, 16 सितम्बर 2006

वी विलसन (05540आर), 01 जनवरी 2005, 01 अक्टूबर 2006

राहुल उपाध्याय (05576वाई), 01 जनवरी 2005, 16 अक्टूबर 2006

डी एस ए संदीप नियोल (05523ए), 01 जुलाई 2004, 16 जनवरी 2006

आलोक कुमार (05509डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004, 01 अप्रैल 2006

के एम सती (05571के), 01 जनवरी 2005, 16 अप्रैल 2006

एस पाधी (05562आर), 01 जनवरी 2005, 16 अप्रैल 2006

पी के ध्यानी (05568बी), 01 जनवरी 2005, 16 जुलाई 2006

एच वी सलुंखे (05543वाई), 01 जनवरी 2005, 16 जुलाई 2006

वरूण अग्रवाल (05582के), 01 जनवरी 2005, 01 अगस्त 2006

नागप्पन राजालिंगम (05536एफ), 01 जनवरी 2005, 16 अगस्त 2006

प्रशान्त नायर (05584आर), 01 जनवरी 2005, 16 सितम्बर 2006

सुशील ध्यानी (05587वाई), 01 जनवरी 2005, 01 अक्टूबर 2006

निथुन गोपीनाथ (05545ए), 01 जनवरी 2005, 16 अक्टूबर 2006

वी के राणा (05559एच), 01 जनवरी 2005, 01 दिसम्बर 2006  
 अनुराग राघव (05564डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005, 01 मार्च 2006  
 एच के चैतन्य (05563टी), 01 जनवरी 2005, 01 अगस्त 2006  
 रोहित वाजपाये (05291जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 अश्वनी त्रिचल (05502बी), 01 जुलाई 2004, 01 फरवरी 2006

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

हरी विजय पाला (42111एफ), 01 जनवरी 2000, 01 जनवरी 2002

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 125 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

शरद भट्टाला (51682एच), 01 जुलाई 2000, 01 जुलाई 2002  
 ए भट्टाचार्या (51683के), 01 जुलाई 2000, 01 अगस्त 2002  
 समीर पावार (51684एन), 01 जुलाई 2000, 01 जुलाई 2002  
 सुकृती रंजन (51685आर), 01 जुलाई 2000, 16 जुलाई 2002  
 कृष्ण रेड्डी (51686टी), 01 जुलाई 2000, 01 अगस्त 2002  
 अभीजीत सन्याल (51720डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001, 01 जनवरी 2003  
 ए के एन बालाजी (51719टी), 01 जनवरी 2001, 01 जनवरी 2003  
 वी एम डोरा (51714एफ), 01 जनवरी 2001, 16 जनवरी 2003  
 वी वासुदेवन (51718आर), 01 जनवरी 2001, 16 फरवरी 2003  
 एस के चक्रवर्ती (51713बी), 01 जनवरी 2001, 16 जनवरी 2003  
 ए रवीन्द्रनाथन (51715एच), 01 जनवरी 2001, 01 मई 2003  
 अतिन कुमार (51711जैड), 01 जनवरी 2001, 16 मई 2003  
 दीपक वर्गीस (51717एन), 01 जनवरी 2001, 16 अगस्त 2003  
 के तिवारी (51716के), 01 जनवरी 2001, 01 सितम्बर 2003  
 अरूण वरगीस (51888ए), 15 अगस्त 2002, 15 फरवरी 2004  
 सुब्रातो मण्डल (51858एच), 12 अगस्त 2002, 27 फरवरी 2004  
 सी के जी नाडार (51887जैड), 13 अगस्त 2002, 13 मार्च 2004  
 मायान्क जैन (51860एन), 12 अगस्त 2002, 27 मई 2004  
 एम महेश (51881के), 12 अगस्त 2002, 27 मई 2004  
 एल बालसन (51880एच), 12 अगस्त 2002, 12 जून 2004  
 एम दुदमोचन (51856बी), 12 अगस्त 2002, 12 जुलाई 2004  
 आर ग्रीवर (51867बी), 12 अगस्त 2002, 27 जून 2004

राजानीश (51869एच), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 के एस अनीश (51866ए), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 सुजित कुमार (51857एच), 12 अगस्त 2002, 12 जुलाई 2004  
 इविन साम (51868एफ), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 मनीश के (51870वाई), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004  
 राहुल जी (51879एफ), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 जे राजेश (51875वाई), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004  
 गिरीश पाटील (51863डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 सुधीर सिंह (51883आर), 12 अगस्त 2002, 27 सितम्बर 2004  
 एस सी विल्लियम (51878बी), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 रिषी वर्मा (51885डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 ए सी डेनिस (51864वाई), 12 अगस्त 2002, 27 सितम्बर 2004  
 ए के पात्रा (51882एन), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004  
 सन्केत मित्रा (51861आर), 12 अगस्त 2002, 12 अगस्त 2004  
 अत्तर खान (51865जैड), 12 अगस्त 2002, 27 दिसम्बर 2004  
 पी के सिन्हा (51873टी), 12 अगस्त 2002, 12 अक्टूबर 2004  
 अनिल कुमार एन (51871एन), 12 अगस्त 2002, 27 नवम्बर 2004  
 सचिन डी (51862टी), 12 अगस्त 2002, 27 नवम्बर 2004  
 प्रदीप (51876जैड), 12 अगस्त 2002, 27 दिसम्बर 2004

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में निम्नलिखित सब लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

रितेश सूरी (51806आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 अंकुश गुप्ता (51824एफ), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 ए अग्रावल (51833ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आर आर पिल्लड (51817आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एस रौल (51812बी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एस बाजपाई (51830डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एन यू काने (51823बी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एस पी राजन (51807टी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 बी के रघुनाथ (51813एफ), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 ए द्विवेदी (51825एच), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वी श्रीमल (51808डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

डी पान्डे (51818टी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 मनीष कुमार (51821जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वी मिश्रा (51819डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आर प्रसाद (51814एच), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एम कोछरे (51822ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एम पी शिवकुमार (51809वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 के भागवत (51827एन), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 ए सिंह (51810जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सी प्रदीप (51816एन), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एल महाराणा (51820वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वी आनन्द (51831वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आनन्द रेवी (51832जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आर बारनवाल (51829टी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आर प्रसाद (51815के), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वी सेकर (51811ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 डी बरमन (51828आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 एच देव (51826के), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 125 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

आर श्रीवत्सन (51559बी), 01 जनवरी 1998, 01 जनवरी 2000  
 पी दिनेश (51786डब्ल्यू), 15 जनवरी 2001, 15 अक्टूबर 2002  
 के एस अनीश (51866ए), 12 अगस्त 2002, 27 मई 2004  
 सी के जे नादर (51887जैड) 13 अगस्त 2002, 28 मार्च 2004

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियर शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

वी बनकोल्ली (41867ए), 05 अगस्त 1996, 05 जून 1998  
 ए वी हिन्ने (51868बी), 05 अगस्त 1996, 05 अगस्त 1998

राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र सं. 4 (1)/यू एस (एम पी)/डी (एन-11/2004) दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

सुमित शिवानी (42261वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 उमेश पी सिंह (42262जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 धीरज के सिंह (42265एफ), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 अखिल पी सिंह (42266एच), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 अंकुश कौशल (42272वाई), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 संतानु आर लिमाए (42278ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 रमेश सी कुमार (42279एन), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वेणु वेमूरी (42258आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सुमित सिंह (42263ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सैलेश वी गाइकवाड़ (42274ए), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

एस आर दिनेश (42281टी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 प्रभू दिनेशा (42412आर), 19 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 निकम सचिन भागवन्त (42413टी), 19 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

नलावाडे अमोल (42390आर), 10 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 पुष्पेन्द्र के सिंह (42264बी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 बिनू मैथ्यू (42277एच), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 गारकी श्रीनिवास राऊ (42384ए), 10 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

कुमार सुरेश वी (42403डब्ल्यू), 12 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 कुमार प्रवीण ए एम (42407बी), 17 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

प्रशान्त टिपण्णा देवकर (42414डब्ल्यू), 20 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

विगनेश आर (42380टी), 10 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 कनकण विजय कृष्णा (42404वाई), 12 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

शण्मुधम प्रदीप (42405जैड), 13 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 के शेदन (42406ए), 13 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 आनन्द के शर्मा (42269आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 नीरज एस एस पाण्डे (42271डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

सुमित एस शिन्दे (42267के), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 विनीत शर्मा (42268एन), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

अनुभव गुप्ता (42273जैड), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सचिन शिवरामन (42260डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 अरूण पी जी नायर (42275बी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सेन्तिल कुमार (42288एच), 10 फरवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 वाई कृष्णा किशोर (42280आर), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 विजयराजन एस (42270टी), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004  
 सदानन्दा एस नड्डागौडा (42276एफ), 01 जनवरी 2003, 16 दिसम्बर 2004

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 125 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

अरूण वरगीस (51888ए), 15 अगस्त 2002, 15 फरवरी 2004  
 सुब्राटो मण्डल (51858एच), 12 अगस्त 2002, 27 फरवरी 2004  
 सी के जी नाडर (51887जैड), 13 अगस्त 2002, 13 मार्च 2004  
 मायाङ्क जैन (51860एन), 12 अगस्त 2002, 27 मई 2004  
 एम महेश (51881के), 12 अगस्त 2002, 27 मई 2004  
 एल बालसन (51880एच), 12 अगस्त 2002, 12 जून 2004  
 एम दुदमोचन (51856बी), 12 अगस्त 2002, 12 जुलाई 2004  
 आर ग्रोवर (51867बी), 12 अगस्त 2002, 27 जून 2004  
 राजानीश (51869एच), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 के एस अनीश (51866ए), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 सुजित कुमार (51857एच), 12 अगस्त 2002, 12 जुलाई 2004  
 इविन साम (51868एफ), 12 अगस्त 2002, 27 जुलाई 2004  
 मनीश के (51870वाई), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004  
 राहुल जी (51879एफ), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 जे राजेश (51875वाई), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004  
 गिरीश पाटील (51863डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 सुधीर सिंह (51883आर), 12 अगस्त 2002, 27 सितम्बर 2004  
 एस सी विल्लियम (51878बी), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 रिषी वर्मा (51885डब्ल्यू), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 ए सी डेनिस (51864वाई), 12 अगस्त 2002, 27 सितम्बर 2004  
 ए के पात्रा (51882एन), 12 अगस्त 2002, 12 सितम्बर 2004

सन्केत मित्रा (51861आर), 12 अगस्त 2002, 12 अगस्त 2004  
 अत्तर खान (51865जैड), 12 अगस्त 2002, 27 दिसम्बर 2004  
 पी के सिन्हा (51873टी), 12 अगस्त 2002, 12 अक्टूबर 2004  
 अनिल कुमार एन (51871एन), 12 अगस्त 2002, 27 नवम्बर 2004  
 सचिन डी (51862टी), 12 अगस्त 2002, 27 नवम्बर 2004  
 प्रदीप (51876जैड), 12 अगस्त 2002, 27 दिसम्बर 2004

(एस. एस. कमीशन)

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, साविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

ए उरीती (42324आर), 12 अगस्त 2002, 27 अगस्त 2004  
 पी जार्ज (42114एन), 01 जुलाई 2000, 01 फरवरी 2003  
 एस सक्सेना (42117डब्ल्यू), 01 जुलाई 2000, 16 मार्च 2003  
 कन्डेकर एच बी (42386एफ), 10 फरवरी 2003, 10 अगस्त 2004  
 अलोक तिवारी (42399के), 10 फरवरी 2003, 10 अगस्त 2004  
 आर बुटेलिया (42393वाइ), 10 फरवरी 2003, 26 अगस्त 2004  
 एन के गतानिया (42398एच), 10 फरवरी 2003, 26 सितम्बर 2004  
 के सुरेश (42392डब्ल्यू), 10 फरवरी 2003, 26 सितम्बर 2004  
 एम रणजीत (42400एन), 10 फरवरी 2003, 26 सितम्बर 2004  
 एस बिसवास (42385बी), 10 फरवरी 2003, 10 अक्टूबर 2004  
 के जी अभीमान (42396बी), 10 फरवरी 2003, 10 दिसम्बर 2004  
 एस राजेश (42377के), 10 फरवरी 2003, 10 दिसम्बर 2004  
 प्रभू दिनेश (42412आर), 19 फरवरी 2003, 19 जनवरी 2005  
 सचिन भागवन्त (42413टी), 19 फरवरी 2003, 19 जनवरी 2005  
 नागराज (42362ए), 23 अगस्त 2002, 23 जुलाई 2004  
 नालावाडे (42390आर), 10 फरवरी 2003, 26 जनवरी 2005  
 पी टी देवाकार (42414डब्ल्यू), 20 फरवरी 2003, 20 फरवरी 2005  
 कुमार प्रवीण (42407बी), 17 फरवरी 2003, 17 फरवरी 2005  
 कुमार सुरेश (42403डब्ल्यू), 12 फरवरी 2003, 12 फरवरी 2005  
 जी श्रीनिवास राऊ (42384ए), 10 फरवरी 2003, 10 फरवरी 2005  
 के विजय कृष्णा (42404वाई), 12 फरवरी 2003, 28 फरवरी 2005  
 आर बिगनेश (42380टी), 10 फरवरी 2003, 26 फरवरी 2005  
 एस प्रदीप कुमार (42405जैड), 13 फरवरी 2003, 13 मार्च 2005  
 के शोधन (42406ए), 13 फरवरी 2003, 13 मार्च 2005

सिद्धार्थ दत्ता (42153ए), 01 जनवरी 2001, 01 जनवरी 2003  
 अजय कुमार (42191एन), 01 जुलाई 2001, 01 जुलाई 2003  
 विक्रम गुलवाड़ी (42154बी), 01 जनवरी 2001, 01 जनवरी 2003  
 जे एस मरवाहा (42155एफ), 01 जनवरी 2001, 01 जनवरी 2003  
 समीर तलवार (42157के), 01 जनवरी 2001, 16 जनवरी 2003  
 ए वी चरित (42152जैड), 01 जनवरी 2001, 16 फरवरी 2003  
 एशिवाहरे (42156एच), 01 जनवरी 2001, 16 अप्रैल 2003

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, सांविधिक 125 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

सूरज एम बी (51877ए), 12 अगस्त 2002, 27 फरवरी 2004

राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3, सांविधिक 123 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं:--

सब लेफ्टिनेन्ट का नाम, व्यक्तिगत सं. कमीशन की तारीख, लेफ्टिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

ए वी देशमुख (42109ए), 01 जनवरी 2000, 16 जनवरी 2002

चेरिनाल शीबू (42210के), 01 जनवरी 2002, 01 जून 2004

जार्ज मैथ्यू

संयुक्त निदेशक (सी एण्ड जे)

कार्मिक निदेशालय

सं. 519, दिनांक 26 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री जसबीर सिंह भाटिया की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. के. देब

अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 520, दिनांक 27 सितम्बर 2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति, श्री एच खशनोबिस, निदेशक (ग्रुप क राजपत्रित) को 31 मई 2007 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं तथा उनका मामला 01 जून 2007 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित कर दिया गया है।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशा. अधिकारी

सं. 521, दिनांक 26 सितम्बर 2007--भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 71) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक (अर्जन) श्री शीलभद्र बैनर्जी की नियुक्ति का अनुमोदन सचिव, पर्यटन मंत्रालय के रूप में हो जाने के फलस्वरूप उन्हें 03 अगस्त 2007 (अपराह्न) से इस मंत्रालय से सेवामुक्त किया जाता है।

अजय तिकी

संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th October 2007

No. 510, dated 26th September 2007—The President is pleased to appoint Shri Vijay Singh, IAS (MP : 70) on transfer from the Department of Road Transport and Highways as Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 31.7.2007 (AN). He will be on tenure for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

AJAY TIRKEY

Jt. Secy.

No. 511, dated 26th September 2007—The President is pleased to appoint Shri Shashi Kant Sharma, IAS (BH : 76), Additional Secretary, Deptt. of Administrative Reforms and Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) as Director General (Acquisition), Deptt. of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 20.8.2007 (FN) in the rank and pay of Additional Secretary by temporarily operating the post at that level.

The President is pleased to appoint Shri R. C. Raturi, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. 2.7.2007 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/9/2006-CS.I dated the 27th June, 2007 & 24th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

In supersession of this Ministry's Notification of even number dated the 12th July, 2007, the President is pleased to appoint Shri R. K. Grover, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, on personal basis in the same Ministry, w.e.f. 2.7.2007 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/9/2006-CS.I dated the 27th June, 2007 & 24th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Jaideep Roy Chowdhury, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Food Processing Industries to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 16.08.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 25th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Shri Girwar Singh, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Communications & IT, Deptt. of Telecommunications to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 14.08.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 25th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Shri Yogendra Singh Awana, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 10.07.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 4th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Smt. Alka Joshi, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Mines to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 03.08.2007 (AN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 25th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Rastogi, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Health & FW Deptt. of Health & FW to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 12.07.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated 4th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint the following CSS, Section Officers borne on the strength of the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Deptt. of Shipping, to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 12.07.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 4th July, 2007.

4-22457:07

- (i) Shri P. C. Dhasmana
- (ii) Ms. Archana Varma

2. The appointment of the above officers as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Smt. Malathi Narayanan, CSS, Section Officer borne on the strength of the Deptt. of Commerce (Supply Division), DGS&D to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 26.07.2007 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated the 4th July, 2007.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, Section Officer, borne on the CSS cadre of the Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of 17th August, 2007 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri B. S. Dahiya, Section Officer, borne on the CSS cadre of the Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of 20th August, 2007 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Suneel Sachdeva, Section Officer, borne on the CSS cadre of the Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of 17th August, 2007 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Sohan Lal Jugran, Assistant Director (OL) borne on the cadre of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and presently working in this Ministry, to the post of Deputy Director (OL) on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f.

2nd August, 2007 (FN) upto 18.10.2007 or until further orders whichever is earlier, in terms of Dep'tt. of Official Language Office Order No. 5/11/2004-OL(Ser), dated the 19th April, 2007.

2. The appointment of the above officer as Deputy Director (OL) is subject to the following condition :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Deputy Director (OL) grade of Department of Official Language Cadre.

S. K. DEB  
Under Secy.

(FINANCE DIVISION)

No. 512, dated 27th September 2007—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Kailoo, as AFA in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 11th July, 2007 until further orders.

D. K. PANDEY  
Dir. (E)

No. 513, the 26th September 2007—The President is pleased to extend the appointment of the following regular Principal Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500, on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Senior Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier.

Name of the Officer, From/To

Shri O. P. Chauhan, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri B. K. Banerjee, 1.7.2007/30.11.2007  
Shri H. C. Narang, 1.7.2007/31.12.2007

The President is pleased to extend the appointment of the following regular Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

Name of the Officer, From/To

Shri M. Sasidharan, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri G. V. Singh, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri A. S. Bharara, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri B. C. Mehta, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri Suresh Kumar, 1.7.2007/31.12.2007  
Shri P. K. Malik, 1.7.2007/31.12.2007

S. K. DEB  
Under Secy.

No. 514, the 26th September 2007—On completion of her extended tenure and expiry of earned leave from 2.7.2007 to 31.8.2007 granted to her, the services of Smt. Chandralekha Mukherjee, IRTS (87), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Railways (Railway Board) w.e.f. 31.8.2007 (AN).

S. K. DEB  
Under Secy.

No. 515, dated 28th September 2007—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Raghubir Singh (JC-257433A), 12 Feb 2007/01 Feb 2007\*

Sub Rajender Singh (JC-255679A), 03 May 2007/01 May 2007\*

Sub Subhash Chand (JC-256472M), 01 May 2007

Sub Kanwaraj Singh Rathore (JC-256560H), 01 May 2007

Sub Ramesh Chand (JC-256557H), 01 Jun 2007

Sub Shiv Prasad (JC-256876P), 02 Jul 2007/01 Jul 2007\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Madan Lal (JC-262210M), 01 Mar 2007/01 Feb 2005\*

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-264027H), 01 Oct 2006

Nb Sub Shivji Lal Meena (JC-262426N), 01 Dec 2006

Nb Sub Krishan Pal (JC-264433H), 01 Dec 2006

Nb Sub Rajendran K (JC-264434L), 01 Dec 2006

Nb Sub Avtar Singh (JC-264437Y), 01 Dec 2006

Nb Sub Chandra Sekhar Misra (JC-264435N), 01 Dec 2006

Nb Sub Nirmal Singh (JC-264440Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Diwan Singh Negi (JC-264441F), 02 Jan 2007/01 Jan 2007\*

Nb Sub Joginder Singh (JC-264442K), 01 Jan 2007

Nb Sub A Rajendran (JC-264438F), 01 Feb 2007

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-264439K), 01 Feb 2007

Nb Sub Rajendra Prasad Yadav (JC-264444P), 01 Mar 2007

Nb Sub Jai Chand (JC-264443M), 01 Feb 2007

Nb Sub Jose Thomas Pattelil (JC-264445X), 01 Mar 2007

Nb Sub Sivanandan OG (JC-264446A), 01 Mar 2007

Nb Sub Pawan Kumar (JC-264447H), 01 Mar 2007

Nb Sub Kamaljit Singh (JC-264591X), 01 Mar 2007

Nb Sub Kumaraswami Marati (JC-262571L), 02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Dilbag Singh (JC-264589A), 04 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Balkishan (JC-264593H), 04 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Swarup Singh (JC-264590P), 01 Apr 2007

Nb Sub Anoop Kumar (JC-264588X), 09 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-264595N), 01 Apr 2007

Nb Sub Mohammed Mahe Alam (JC-264597Y), 04 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Kishori Lal Chouhan (JC-264596W), 02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Gopal Singh (JC-264750K), 03 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Rajpal Singh (JC-264599K), 21 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Bhagwant Singh (JC-264749P), 01 Apr 2007

Nb Sub Madan Singh (JC-264602Y), 09 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Suraj Mal (JC-264751M), 01 May 2007

Nb Sub Jagdev Singh (JC-264752P), 01 May 2007

Nb Sub Kartar Singh (JC-264600N), 01 May 2007

Nb Sub Lakhvir Singh (JC-264753X), 01 May 2007

Nb Sub Nagen Prasad Gope (JC-264754A), 01 May 2007

Nb Sub Dashrath Singh (JC-264601W), 01 May 2007

Nb Sub Prem Singh Verma (JC-264755H), 16 May 2007/01 May 2007\*

Nb Sub Narendra Kumar Agnihotri (JC-264756L), 05 May 2007/01 May 2007\*

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-265210X), 01 Jun 2007

Nb Sub Dilavar Singh (JC-265212H), 01 Jun 2007

Nb Sub Ram Niwas (JC-265213L), 01 Jun 2007

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-265216Y), 01 Jul 2007

To be Substantive Nb Sub

Hav Ram Swaroop Yadav (No. 14472868A now JC-269835K), 10 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Hav Gupteshwar Nath Yadav (No. 14376221P now JC-269836M), 11 Sep 2006/01 Jun 2006\*

BHM Name Singh (No. 14481164X now JC-269837P), 26 Jul 2006/02 Jun 2006\*

RHM Raghubir Lal (No. 14484340P now JC-269838X), 27 Sep 2006/01 Jul 2006\*

Hav Prabir Kumar Nath (No. 14403335M now JC-269839A), 23 Oct 2006/01 Aug 2006\*

Hav Basavaraj S Vakkund (No. 14370805K now JC-269840P), 10 Sep 2006/06 Aug 2006

Hav Ashok Kumar P (No. 15108061N now JC-269841X), 14 Oct 2006/07 Aug 2006\*

Hav Prem Lal (No. 14401966W now JC-269842A), 16 Sep 2006/10 Aug 2006\*

Hav Mahender Singh (No. 14398936L now JC-269843H), 28 Nov 2006/01 Sep 2006\*

Hav Jagdish Singh (No. 14488070H now JC-269844L), 22 Sep 2006/01 Sep 2006\*

Hav Gajanan Prasad Mishra (No. 14481362H now JC-269845N), 01 Nov 2006/01 Sep 2006\*

Hav Subbe Gowda KM (No. 14399844L now JC-269846W), 10 Oct 2006/01 Sep 2006\*

Hav Des Raj (No. 14486549Y now JC-269847Y), 24 Nov 2006/01 Oct 2006\*

Hav Mahendra Kumar Pandey (No. 14481375A now JC-269848F), 01 Nov 2006

BHM Rajendra Prasad (No. 14367439A now JC-269849K), 01 Nov 2006

Hav Shiv Karan Singh Bhadoria (No. 15103821P now JC-269850Y), 08 Dec 2006/01 Dec 2006\*

Hav Gurnam Singh (No. 14497408K now JC-269990L), 29 Nov 2006/08 Mar 2006\*

BHM Kamal Dev (No. 14481794X now JC-269991N), 28 Sep 2006/30 Jun 2006\*

BHM Balwinder Singh (No. 14496833H now JC-269992W), 09 Nov 2006/01 Aug 2006\*

Hav Sarabjit Singh (No. 14485096M now JC-269993Y), 21 Nov 2006/01 Aug 2006\*

BHM Patel Anil Kumar Arjun Bhai (No. 14491398P now JC-269994F), 01 Feb 2007/27 Aug 2006\*

Hav Ranbir Sharma (No. 14375538X now JC-269995K), 27 Dec 2006/01 Oct 2006\*

Hav Ram Nath (No. 14366059P now JC-269996M), 06 Nov 2006/01 Nov 2006\*

Hav Rajeevan P (No. 14399179N now JC-269997P), 03 Nov 2006/01 Nov 2006\*

Hav Basant Singh (No. 14481590N now JC-269998X), 03 Nov 2006/01 Nov 2006\*

Hav Bikram Singh (No. 15113186P now JC-269999A), 08 Dec 2006/01 Nov 2006\*

Hav Dinesh Prasad (No. 14364355F now JC-270000F),  
19 Dec 2006/01 Dec 2006\*

RHM Brijesh (No. 14481776P now JC-270001K), 08 Jan  
2007/01 Dec 2006\*

Hav Attar Singh (No. 14389035X now JC-270002M),  
15 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Hav Ram Roop (No. 14476402P now JC-270003P), 08 Jan  
2007/01 Jan 2007\*

Hav Nemi Chand (No. 14371534K now JC-270004X),  
01 Jan 2007

BHM Madho Singh (No. 14402706X now JC-270005A),  
06 Jan 2007/01 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority wef)

#### PIONEER CORPS

To be Substantive Sub Maj (GD)

Rank, Name (Personal No.), Date of Promotion/substantive  
Rank of Sub Maj

Sub (GD) Ashit Kumar Pandit (JC-829042W), 15 Mar  
2007\*

Sub (GD) Pramod Kumar (JC-829045K), 11 Jun 2007#

\*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef  
01 Mar 2007 without effect on pay and allowances.

#Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef  
01 Jun 2007 without effect on pay and allowances.

To be Substantive Sub (GD/RT)

Rank, Name (Personal No.), Date of Promotion and  
Substantive Rank of Sub

Nb Sub (GD) Lala Ram (JC-829275X), 01 Dec 2006

Nb Sub (GD) Godabari Ratha (JC-829276A), 01 Feb 2007

Nb Sub (GD) Bidhu Bhushan Biswas (JC-829277H),  
01 Feb 2007

Nb Sub (GD) Mandal (JC-829278L), 01 Feb 2007

Nb Sub (GD) Maheshwar Mahto (JC-829281L), 01 Feb  
2007

Nb Sub (GD) Balwant Singh (JC-829282N), 02 Mar 2007@

Nb Sub (GD) Jagdish Prasad (JC-829283W), 10 Mar 2007@

Nb Sub (GD) Hari Nath Thakur (JC-829284Y), 28 May  
2007#

Nb Sub (GD) Sawalia Prasad (JC-829285F), 01 Apr 2007

Nb Sub (RT) Kuldip Kumar Shukla (JC-829136N), 26 Dec  
2006\*

Nb Sub (RT) Kripa Shankar Tripathi (JC-829138Y), 02 Feb  
2007\*

@Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Mar  
2007 without effect on pay & allowances.

#Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Apr  
2007 without effect on pay & allowances.

\*Granted seniority in the rank of Sub (RT) wef 01 Dec  
2006 without effect on pay & allowances.

To be Substantive Nb Sub (RT)

Name (JC Number), Date of Promotion and Substantive  
Rank of Nb Sub

Chandra Kant (JC-829337M), 10 Dec 2005

Murari Lal Sharma (JC-829368M), 02 Dec 2006

P. RAMA SASTRY  
Under Secy.

No. 516, dated 28th September 2007—The President is  
pleased to make the promotion of undermentioned AMC  
officer with effect from the date as indicated against his  
name :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Colonel (Time Scale)

Lt Col HK Vats (NTR-16379Y), 17 May 2005

G. RAVINDRANATH  
Brig.  
Dy. DGAFMS (Pers.)

No. 517, dated 28th September 2007—The President is  
pleased to make the promotion of undermentioned AMC  
officer with effect from the date as indicated against his  
name :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Lt Col

Lt Col HK Vats (NTR-16379Y), 16 Dec 2004

PAWAN KAPOOR  
Dir. (P)  
O/o. DGAFMS

No. 518, dated 1st October 2007—The President is pleased  
to make the following promotion in the Executive Branch of  
Indian Navy under provisions of GOI letter No. 4(1)/US(MP)/  
D(N-II) dated 11 Mar 2005 and IHQ/MoD letter No. NA/  
3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

## NAVY BRANCH

## (PERMANENT COMMISSION)

## Sub Lieutenants to be Lieutenants

Name &amp; Pers No of SLt, Date of Co'mmn/Date as Lt

Kamal Ashraf (05232R), 01 Jul 2002/16 Dec 2004  
 Amit S Gore (05290Y), 01 Jan 2003/16 Dec 2004  
 A Kalaan (05522Z), 01 Jul 2004/16 Nov 2005  
 Rakesh Rawat (05231N), 01 Jul 2002/16 Dec 2004  
 SS Hari (05287R), 01 Jan 2003/16 Dec 2004  
 Gaurav Durgapal (05432W), 01 Jan 2004/16 Apr 2005  
 Pulkit Kohli (05443W), 01 Jan 2004/01 Nov 2005  
 Ashish Dutta (05438H), 01 Jan 2004/16 Aug 2005  
 Avishek Mandal (05435A), 01 Jan 2004/01 Jan 2006  
 SSP Singh (05449H), 01 Jan 2004/16 Sep 2005  
 Shaan Stanley (05274K), 01 Jan 2003/16 Dec 2004  
 Rohan M Kini (05517N), 01 Jul 2004/16 Jul 2005  
 Ravindra Yadav (05518R), 01 Jul 2004/01 Aug 2005  
 Abhishek Yadav (05501A), 01 Jul 2004/16 Aug 2005  
 Sachin K Rawat (05524B), 01 Jul 2004/16 Aug 2005  
 VJ Mohan (05505K), 01 Jul 2004/01 Oct 2005  
 Paul S Ranjan (05521Y), 01 Jul 2004/16 Oct 2005  
 Sumit Malik (05530T), 01 Jul 2004/16 Dec 2005  
 BR Shashidhar (05525F), 01 Jul 2004/01 Jan 2006  
 Srijit M Menon (05504H), 01 Jul 2004/16 Jan 2006  
 M Prasanna Kumar (05507R), 01 Jul 2004/01 Mar 2006  
 Alok Bhakat (05510Y), 01 Jul 2004/01 Apr 2006  
 NC Vijay Krishna (05511Z), 01 Jul 2004/01 Feb 2006  
 Akshay Khanna (05520W), 01 Jul 2004/16 Aug 2005  
 Ruben Fernandes (05427H), 01 Jan 2004/16 Feb 2006  
 AS Randhawa (05397R), 01 Jul 2003/01 Feb 2005  
 Mrinmoy Ghosh (05393F), 01 Jul 2003/01 Apr 2005  
 Pradeep Singh (05503F), 01 Jul 2004/01 Sep 2005  
 T Dutta (05529R), 01 Jul 2004/16 Apr 2006  
 Adit Patnaik (05515H), 01 Jul 2004/01 Aug 2005  
 Ishan Pande (05526H), 01 Jul 2004/16 Dec 2005  
 SK Arora (05561N), 01 Jan 2005/01 Mar 2006  
 Rushwan PR (05574T), 01 Jan 2005/01 May 2006  
 Praveen Kumar (05555Z), 01 Jan 2005/16 Aug 2006  
 S Omanakuttan (05579B), 01 Jan 2005/16 Aug 2006

Roopak (05572N), 01 Jan 2005/01 Sep 2006

Vineet Mankotia (05546B), 01 Jan 2005/16 Sep 2006

V Wilson (05540R), 01 Jan 2005/01 Oct 2006

Rahul Upadhyay (05576Y), 01 Jan 2005/16 Oct 2006

DSA Sandeep Noel (05523A), 01 Jul 2004/16 Jan 2006

Alok Kumar (05509W), 01 Jul 2004/01 Apr 2006

KM Sati (05571K), 01 Jan 2005/16 Apr 2006

S Padhy (05562R), 01 Jan 2005/16 Apr 2006

PK Dhyani (05568B), 01 Jan 2005/16 Jul 2006

HV Salunkhe (05543Y), 01 Jan 2005/16 Jul 2006

Varun Agarwal (05582K), 01 Jan 2005/01 Aug 2006

Nagappan Rajalingam (05536F), 01 Jan 2005/16 Aug 2006

Prashant Nair (05584R), 01 Jan 2005/16 Sep 2006

Susheel Dhyani (05587Y), 01 Jan 2005/01 Oct 2006

Nithun Gopinath (05545A), 01 Jan 2005/16 Oct 2006

VK Rana (05559H), 01 Jan 2005/01 Dec 2006

Anurag Raghav (05564W), 01 Jan 2005/01 Mar 2006

HK Chaitanya (05563T), 01 Jan 2005/01 Aug 2006

Rohit Bajpai (05291Z), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

Ashwani Trichal (05502B), 01 Jul 2004/01 Feb 2006

## PERMANENT COMMISSION

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No., Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

Hari Vijay Pala (42111F), 01 Jan 2000, 12, 01 Jan 2002

The DGN raised vide No. JO/98 dated 20th Jan 2004 in so far as this officer is concerned is cancelled

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name of SLt & Personal No., Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

Sharad Bhadula (51682H), 01 Jul 2000, 12, 01 Jul 2002

A Bhattacharya (51683K), 01 Jul 2000, 11, 01 Aug 2002

Sameer Pawar (51684N), 01 Jul 2000, 12, 01 Jul 2002

Sukriti Ranjan (51685R), 01 Jul 2000, 11.5, 16 Jul 2002

Krishan Reddy (51686T), 01 Jul 2000, 11, 01 Aug 2002

Abhijit Sanyal (51720W), 01 Jan 2001, 12, 01 Jan 2003

AKN Balaji (51719T), 01 Jan 2001, 12, 01 Jan 2003

VM Dora (51714F), 01 Jan 2001, 11.5, 16 Jan 2003  
 V Vasudevan (51718R), 01 Jan 2001, 10.5, 16 Feb 2003  
 SK Chakraborty (51713B), 01 Jan 2001, 11.5, 16 Jan 2003  
 A Ravindranathan (51715H), 01 Jan 2001, 8, 01 May 2003  
 Atin Kumar (51711Z), 01 Jan 2001, 7.5, 16 May 2003  
 Deepak Varghese (51717N), 01 Jan 2001, 4.5, 16 Aug 2003  
 K Tiwari (51716K), 01 Jan 2001, 4, 01 Sep 2003  
 Arun Verghese (51888A), 15 Aug 2002, 12.0, 15 Feb 2004  
 Subrato Mandal (51858H), 12 Aug 2002, 11.5, 27 Feb 2004  
 CKJ Nadar (51887Z), 13 Aug 2002, 11.0, 13 Mar 2004  
 Mayank Jain (51860N), 12 Aug 2002, 8.5, 27 May 2004  
 M Mahesh (51881K), 12 Aug 2002, 8.5, 27 May 2004  
 L Balson (51880H), 12 Aug 2002, 8.0, 12 Jun 2004  
 M Dudhmochan (51856B), 12 Aug 2002, 7.0, 12 Jul 2004  
 R Grover (51867B), 12 Aug 2002, 7.5, 27 Jun 2004  
 Rajanish (51869H), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004  
 KS Anish (51866A), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004  
 Sujit Kumar (51857H), 12 Aug 2002, 7.0, 12 Jul 2004  
 Ivin Sam (51868F), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004  
 Manish K (51870Y), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004  
 Rahul G (51879F), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004  
 J Rajesh (51875Y), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004  
 Girish Patil (51863W), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004  
 Sudhir Singh (51883R), 12 Aug 2002, 4.5, 27 Sep 2004  
 SC William (51878B), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004  
 Rishi Verma (51885W), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004  
 AC Dennis (51864Y), 12 Aug 2002, 4.5, 27 Sep 2004  
 AK Patra (51882N), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004  
 Sanket Mitra (51861R), 12 Aug 2002, 6.0, 12 Aug 2004  
 Athar Khan (51865Z), 12 Aug 2002, 1.5, 27 Dec 2004  
 PK Sinha (51873T), 12 Aug 2002, 4.0, 12 Oct 2004  
 Anil Kumar N (51871N), 12 Aug 2002, 2.5, 27 Nov 2004  
 Sachin D (51862T), 12 Aug 2002, 2.5, 27 Nov 2004  
 Pradcep (51876Z), 12 Aug 2002, 1.5, 27 Dec 2004

#### Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion of the officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name (Personal Number), Date of Commission, Seniority (in months), Date as Lt

Ritesh Suri (51806R), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

Ankush Gupta (51824F), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

A Agrawal (51833A), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

RR Pillai (51817R), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

S Roul (51812B), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

S Bajpai (51830W), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

NU Kane (51823B), 01 Jan 2003, 12, 16 Dec 2004

SP Rajan (51807T), 01 Jan 2003, 11, 16 Dec 2004

BK Raghunath (51813F), 01 Jan 2003, 11, 16 Dec 2004

A Dwivedi (51825H), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

V Srimal (51808W), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

D Pande (51818T), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

Manish Kumar (51821Z), 01 Jan 2003, 8, 16 Dec 2004

V Mishra (51819W), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

R Prasad (51814H), 01 Jan 2003, 8, 16 Dec 2004

M Kochare (51822A), 01 Jan 2003, 7, 16 Dec 2004

MP Sivakumar (51809Y), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

K Bhagwat (51827N), 01 Jan 2003, 10.5, 16 Dec 2004

A Singh (51810Z), 01 Jan 2003, 11, 16 Dec 2004

C Pradeep (51816N), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

L Maharana (51820Y), 01 Jan 2003, 10, 16 Dec 2004

V Anand (51831Y), 01 Jan 2003, 7.5, 16 Dec 2004

Anand Revi (51832Z), 01 Jan 2003, 9, 16 Dec 2004

R Baranwal (51829T), 01 Jan 2003, 7.5, 16 Dec 2004

R Prasad (51815K), 01 Jan 2003, 4, 16 Dec 2004

V Sekar (51811A), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

D Burman (51828R), 01 Jan 2003, 6, 16 Dec 2004

H Deo (51826K), 01 Jan 2003, 6, 16 Dec 2004

#### (SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No. Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

R Srivatsan (51559B), 01 Jan 1998, 12, 01 Jan 2000

P Dinesh (51786W), 15 Jan 2001, 09, 15 Oct 2002

KS Anish (51866A), 12 Aug 2002, 8.5, 27 May 2004

CKJ Nadar (51887Z), 13 Aug 2002, 10.5, 28 Mar 2004

The DGN raised vide letter No. JO/99 dated 1st Nov 2004 in so far as these officers are is concerned is cancelled.

The President is pleased to make the following promotion in Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No, Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

V Bankolli (41867A), 05 Aug 1996, 8.0, 05 Jun 1998

AV Hinge (41868B), 05 Aug 1996, 6.0, 05 Aug 1998

The DGN raised vide No. JO/100 dated 15 Sep 2000 in so far as these officers are concerned may be treated as cancelled.

#### (PERMANENT COMMISSION)

##### Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make promotion of the officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under provisions of GOI letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 March 2005 and IHQ/MoD letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name (Pers No.), DOC, Sen, Due date of promotion Lt

Sumit Shivani (42261Y), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Umesh P Singh (42262Z), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Dheeraj K Singh (42265F), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Akhil P Singh (42266H), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Ankush Kaushal (42272Y), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Santanu R Limaye (42278A), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Ramesh C Kumar (42279N), 01 Jan 2003, 12.0, 16 Dec 2004

Venu Vemuri (42258R), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

Sumit Singh (42263A), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

Sailesh V Gaikwad (42274A), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

SR Dinesh (42281T), 01 Jan 2003, 11.5, 16 Dec 2004

Prabhu Dinesha S (42412R), 19 Feb 2003, 7.0, 16 Dec 2004

Nikam Sachin Bhagwant (42413T), 19 Feb 2003, 7.0, 16 Dec 2004

Nalavade Amol (42390R), 10 Feb 2003, 6.5, 16 Dec 2004

Pushpendra K Singh (42264B), 01 Jan 2003, 11.0, 16 Dec 2004

Binu Mathew (42277H), 01 Jan 2003, 11.0, 16 Dec 2004

Garki Srinivas Rao (42384A), 10 Feb 2003, 6.0, 16 Dec 2004

Kumar Suresh V (42403W), 12 Feb 2003, 6.0, 16 Dec 2004

Kumar Praveen AM (42407B), 17 Feb 2003, 6.0, 16 Dec 2004

Prashant Tippanna Devakar (42414W), 20 Feb 2003, 6.0, 16 Dec 2004

Vignesh R (42380T), 10 Feb 2003, 5.5, 16 Dec 2004

Kankan Vijay Krishna (42404Y), 12 Feb 2003, 5.5, 16 Dec 2004

Shanmugham Pradeep (42405Z), 13 Feb 2003, 5.0, 16 Dec 2004

K Shedhan (42406A), 13 Feb 2003, 5.0, 16 Dec 2004

Anand K Sharma (42269R), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

Niraj SS Pandey (42271W), 01 Jan 2003, 9.5, 16 Dec 2004

Sumit S Shinde (42267K), 01 Jan 2003, 9.0, 16 Dec 2004

Vineet Sharma (42268N), 01 Jan 2003, 9.0, 16 Dec 2004

Anubhav Gupta (42273Z), 01 Jan 2003, 8.0, 16 Dec 2004

Sachin Sivaraman (42260W), 01 Jan 2003, 6.5, 16 Dec 2004

Arun PG Nair (42275B), 01 Jan 2003, 6.5, 16 Dec 2004

Senthil Kumar (42288H), 10 Feb 2003, 6.0, 16 Dec 2004

Y Krishna Kishore (42280R), 01 Jan 2003, 5.0, 16 Dec 2004

Vijayrajan S (42270T), 01 Jan 2003, 4.5, 16 Dec 2004

Sadananda S Nadagaudda (42276F), 01 Jan 2003, 4.0, 16 Dec 2004

This supersedes all previous DGNs published in respect of the above named officers as Lts.

#### (PERMANENT COMMISSION)

##### Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make promotion of the officers in the Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No, Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

Arun Verghese (51888A), 15 Aug 2002, 12.0, 15 Feb 2004

Subrato Mandal (51858H), 12 Aug 2002, 11.5, 27 Feb 2004

CKJ Nadar (51887Z), 13 Aug 2002, 11.0, 13 Mar 2004

Mayank Jain (51860N), 12 Aug 2002, 8.5, 27 May 2004

M Mahesh (51881K), 12 Aug 2002, 8.5, 27 May 2004

L Balson (51880H), 12 Aug 2002, 8.0, 12 Jun 2004

M Dudhmochan (51856B), 12 Aug 2002, 7.0, 12 Jul 2004

R Grover (51867B), 12 Aug 2002, 7.5, 27 Jun 2004

Rajanish (51869H), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004

KS Anish (51866A), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004

Sujit Kumar (51857H), 12 Aug 2002, 7.0, 12 Jul 2004

Ivin Sam (51868F), 12 Aug 2002, 6.5, 27 Jul 2004

Manish K (51870Y), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004

Rahul G (51879F), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004

J Rajesh (51875Y), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004

Girish Patil (51863W), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004

Sudhir Singh (51883R), 12 Aug 2002, 4.5, 27 Sep 2004

SC William (51878B), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004

Rishi Verma (51885W), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004  
 AC Dennis (51864Y), 12 Aug 2002, 4.5, 27 Sep 2004  
 AK Patra (51882N), 12 Aug 2002, 5.0, 12 Sep 2004  
 Sanket Mitra (51861R), 12 Aug 2002, 6.0, 12 Aug 2004  
 Athar Khan (51865Z), 12 Aug 2002, 1.5, 27 Dec 2004  
 PK Sinha (51873T), 12 Aug 2002, 4.0, 12 Oct 2004  
 Anil Kumar N (51871N), 12 Aug 2002, 2.5, 27 Nov 2004  
 Sachin D (51862T), 12 Aug 2002, 2.5, 27 Nov 2004  
 Pradeep (51876Z), 12 Aug 2002, 1.5, 27 Dec 2004

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No, Date of commission; Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

A Uriti (42324R), 12 Aug 2002, 5.5, 27 Aug 2004

## (PERMANENT COMMISSION)

## Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion of the officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No, Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

P George (42114N), 01 Jul 2000, 5.0, 01 Feb 2003

S Saxena (42117W), 01 Jul 2000, 3.5, 16 Mar 2003

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

## Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion of the officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No, Date of commission, Seniority (in months), Date of Promotion as Lt

Kandekar HB (42386F), 10 Feb 2003, 12, 10 Aug 2004

Alok Tiwari (42399K), 10 Feb 2003, 12, 10 Aug 2004

R Butolia (42393Y), 10 Feb 2003, 11.5, 26 Aug 2004

NK Gathania (42398H), 10 Feb 2003, 10.5, 26 Sep 2004

K Suresh (42392W), 10 Feb 2003, 10.5, 26 Sep 2004

M Ranjit (42400N), 10 Feb 2003, 10.5, 26 Sep 2004

S Biswas (42385B), 10 Feb 2003, 10.0, 10 Oct 2004

KG Abhiman (42396B), 10 Feb 2003, 8.0, 10 Dec 2004

S Rajesh (42377K), 10 Feb 2003, 8.0, 10 Dec 2004

Prabhu Dinesha (42412R), 19 Feb 2003, 7.0, 19 Jan 2005

Sachin Bhagwant (42413T), 19 Feb 2003, 7.0, 19 Jan 2005

Nagaraj R (42362A), 23 Aug 2002, 7.0, 23 Jul 2004

Nalavade AK (42390R), 10 Feb 2003, 6.5, 26 Jan 2005

PT Devakar (42414W), 20 Feb 2003, 6.0, 20 Feb 2005

Kumar Praveen (42407B), 17 Feb 2003, 6.0, 17 Feb 2005

Kumar Suresh (42403W), 12 Feb 2003, 6.0, 12 Feb 2005

G Srinivas Rao (42384A), 10 Feb 2003, 6.0, 10 Feb 2005

K Vijay Krishna (42404Y), 12 Feb 2003, 5.5, 28 Feb 2005

R Vignesh (42380T), 10 Feb 2003, 5.5, 26 Feb 2005

S Pradeep Kumar (42405Z), 13 Feb 2003, 5.0, 13 Mar 2005

K Shodhan (42406A), 13 Feb 2003, 5.0, 13 Mar 2005

## (PERMANENT COMMISSION)

## Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion of the officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name of SLt, Personal Number, Date of Commission, Seniority gained (in months), Date of promotion as Lt

Siddharth Dutta (42153A), 01 Jan 2001, 12.0, 01 Jan 2003

Ajay Kumar (42191N), 01 Jul 2001, 12.0, 01 Jul 2003

Vikram Gulwadi (42154B), 01 Jan 2001, 12.0, 01 Jan 2003

JS Marwaha (42155F), 01 Jan 2001, 12.0, 01 Jan 2003

Sameer Talwar (42157K), 01 Jan 2001, 11.5, 16 Jan 2003

AV Charith (42152Z), 01 Jan 2001, 10.5, 16 Feb 2003

A Shivahare (42156H), 01 Jan 2001, 8.5, 16 Apr 2003

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to make the following promotion in Electrical Branch of the Indian Navy under Regulation 125 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No., Date of Commission, Seniority (in months), Date as Lt

Suraj MB (51877A), 12 Aug 2002, 11.5, 27 Feb 2004

## (PERMANENT COMMISSION)

## Sub Lieutenants to be Lieutenants

The President is pleased to make the following promotion of officers in the Engineering Branch of the Indian Navy under Regulation 123 of Regs Navy Part III Statutory :—

Name & Personal No., Date of Commission, Seniority (in months), Date as Lt

AV Deshmukh (42109A), 01 Jan 2000, 11.5, 16 Jan 2002

Cheringal Sheebu (42210K), 01 Jan 2002, 7.0, 01 Jun 2004

GEORGE MATHEW

Jt. Dir. (C & J)

Dte. of Personnel

No. 519, the 26th September 2007—The President is pleased to retire Shri Jasbir Singh Bhatia, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.8.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. K. DEB  
Under Secy.

Civil Service from Government Service w.e.f. 31 May 2007 and transferred to Pension Establishment with effect from 01 Jun 2007.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

New Delhi

ARMY BRANCH

No. 520, the 27th September 2007—On attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri H Khasnobis, Director (Group 'A' Gazetted) of AFHQ

No. 521, the 26th September 2007—Consequent on being approved for appointment as Secretary, Ministry of Tourism, Shri Shilabhadra Banerjee, IAS (AP : 71), Director General (Acquisition), Ministry of Defence is relieved from this Ministry w.e.f. 03. 8.2007 (AN).

AJAY TIRKEY  
Jt. Secy.